



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 462]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 1983/अग्रहायण 10, 1905

No. 462] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 1983/AGRAHAYANA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1983

अधिसूचनाएं

सं० 279/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 1st December, 1983

NOTIFICATIONS

NO. 279/83-CENTRAL EXCISES

सा० का० नि० 873 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय
उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधि-
नियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद
सं० 23क की उपमद (4) के अंतर्गत आने वाले रुक्ष
चश्मा कांच ब्लैक को जिनके अंतर्गत फ्लैट बटन हैं, उक्त
अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त
उत्पाद-शुल्क में छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1985 तक, जिसमें यह
सारीक्ष भी सम्मानित है, प्रवृत्त रहेगी।

[फा० सं० 335/10/83-टीआरयू]

G.S.R. 873(E).—In exercise of the powers
conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central
Excise Rules, 1944 the Central Government hereby
exempts rough opthalmic glass blanks including
flint buttons, falling under sub-item (4) of Item
No. 23A of the First Schedule to the Central
Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from
the whole of the duty of excise leviable thereon
under section 3 of the said Act.

2. This notification shall be in force upto and
inclusive of the 30th day of November 1985.

[F. No. 355/10/83-TRU]

सं० 280/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

NO. 280/83-CENTRAL EXCISES

सां कां नि० 874 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 81/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983 का निम्नलिखित और सशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं० 89 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“90.279/83-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 दिसम्बर, 1983”।

[फा० सं० 335/10/83-टीआरयू]
के० एस० वेंकटगिरि, अवर सचिव

G.S.R. 874(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 81/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983, namely :—

In the Schedule to the said notification, after S. No. 89 and the entry relating thereto, the following S. No. and entry shall be inserted, namely :—

“90. 279/83-Central Excises, dated the 1st December, 1983”.

[F. No. 335/10/83-TRU]
K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.